विज़नेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली 23 मई 2018 बुधवार

सार्वजनिक घोषणा

[दिवाला और ऋणशोध अक्षमता (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 31(2) के साथ पठित विनियम 12(3)]

तिरूपति सिरैमिक्स लिमिटेड (परिसमापन के द्वारा) के हितघारकों के ध्यानार्थ

भारतीय दिवाला और ऋणशोध अक्षमता (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम भारतीय ादवाला आर ऋणशाध अक्षमता (पारत्तमापन प्राक्रया) ।वानयमावला, 2016 क ावानयम 31 के अनुसरण में, एतद्द्वारा कार्पोरेट देनदार के सभी हितधारकों हेतु सार्वजितक घोषणा की जाती है कि तिरूपति सिरेनिक्स लिमिटेड (कार्पोरेट देनदार) के हितधारकों की सूची दिनांक 18–05–2018 को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), चंडीगढ़ पीठ

कृपया नोट करें कि दावा की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि 21-04-2018 थी।

हितवारकों की सुबी, समय समय पर संशोधितानुसार, जन व्यक्तियों, जो दावे का प्रमाण प्रस्तु कर बुके हैं, तथा कार्योरेट देनदार के सदस्यों, पार्टनमें, निदेशकों और गारंटरों इसा निरीक्षण المات المات

ईमेल आईडी: corporate@emmsons.com वेबसाइट : www.emmsons.com

सूचना

भूपना
भारतीय प्रतिमृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यता एवं फ्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 47(1) (ए) के प्रावधानों के अनुसार एवदहारा सूचना वी जाती है कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अन्य विषयों के साथ कंपनी के वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन तथा अंगीकृत करने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 17, कम्युनिटी सेंटर, जमफदपुर, नई हिल्ली-110048 हैं अनुसार सेंटर, जमरुदपुर, नई दिल्ली-110048 में बुधवार, 30 मई, 2018 को आयोजित होगी।

कृते एमसन्स इंटरनेशनल लिमिटेड

थानः नई दिल्ली संध्या केडिया दिनांकः 22.05,2018 (कंपनी सचिव)

ब्रॉन बायोटेक लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : 4बी, आसफ अली रोड, द्वितीय तल, दिल्ली स्टॉक एक्सचेन्ज बिल्डिंग, नई दिल्ली—110002

(सीआईएन : L74899DL1985PLC022468)

(सीआइंएन: L74899DL1985PLC022468)
प्रवना
एतद्वारा सेवी (सूबीयन दायित्व और प्रकटीकरण
अपेक्षाएं) विनियमावती, 2015 के विनियम
29(1)(क) के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण
में सूबना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल
की 01/18—19 बैठक मंगलवार, 29 मई, 2018 को
अप. 3.30 बजे 4बी, आसफ अली रोड, द्वितीय तल,
दिल्ली स्टॉक एक्सवेन्ज विल्डिंग, नई
दिल्ली—10002 स्थित इसके पंजीकृत कार्यालय में
आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य के साथ, 31
मार्च, 2018 को समाप्त दिमादी एवं वर्ष हेतु कम्पनी
के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम पर विचारित एवं
अनुमीदित किए जाएंगे।
इसके अविरिक्त, अंतरंगी व्यापार कि निषंघ हेतु
कम्पनी की आचार सहिता के अनुसार, कम्पनी की
प्राप्त अपेता के संख्यवार हेतु व्यापार खिड़की 31
मार्च, 2018 को समाप्त तिमादी एवं वर्ष हेतु कम्पनी
के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा के
प्रयोजनार्थ, कम्पनी के सभी निदेशकों/
अधिकारियों/ पदनामित कमंजारियों के लिए 23
मई, 2018 से स्टॉक एक्सवेन्ज को कम्पनी वे
वित्तीय परिणामों की घोषणा के क्षापणी वित्तीय परिणामों के वाद 48 घंटे तक
(वोनों दिन सहित) वंद रहेगी।
यह स्टान कम्पनी की वित्रीय परिणामां वित्रार्थ सूचना

(दोनों दिन सहित) बंद रहेगी। यह सूचना कम्पनी

की वेबसाइट www.brawnbiotech.com पर तथा स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइटwww.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते एवं हिते बोर्ड स्थान : नई दिल्ली हस्ता./ ममता सुरकाली (कम्पनी सेक्रेटरी) तिथि : 22-05-2018

रेलिगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ति

पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय तल, राजलोक विल्डिंग, 24, नेहरू प्लेम, नई दिल्ली-110019 कॉर्पोरेट कार्यालय : नौंबा तल, टॉबर बी, पारस ट्विन टाइमी, मैक्टर-54, गोल्फ कोर्स रोड, गुड़गाट

कब्जा सूचना

(नियम 8(1) (परिशिष्ट चतुर्थ) जबिक, अधोहस्ताक्षरी, मैसर्स रेलिगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिर्ग बैंक (पूर्णत: भारतीय रिर्जन बैंक के स्वामित्व में) के साथ पंजीकृत आवास वित्त कंपनी के

प्रतिभृतिकरण एवं पुनीनर्माण एवं प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) 2002 की धारा 13(12) के साथ पढ़े नियम 3 में मुदता शक्तियों के अंतर्गत निम्न ("कर्जवार" बकाय ऋग राशि तथा आगे का ब्याज व अन्य श्वर्ष सुबना मिलने के 6

(ए) संपत्ति, प्लांट व उपकरण	राम रकम व	THE REAL PROPERTY.		ज क छ। ।देव व	भावर भुगतान
(बी) पूजीं प्रगति में	0.01	0.01		238.04	238.04
(सी) निवेश संपत्ति			(बी)अन्य इक्विटी	196.17	
(डी) गुडविल			कुल इक्विटी		-197.30
(ई) अन्य अमूर्त संपत्तियां			देयताएं:	41.86	40.74
(एफ) विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां			गैर-चालू देयताएं:		
(जी) बेरियर प्लांट के बजाय जैविक संपत्तियां			(ए) वित्तीय देयताएं	and the same	
(एच) वित्तीय संपत्तियां *			(1) ऋण		
(1) निवेश:			(2) भुगतानयोग्य व्यापार	The same	
(2) प्राप्तयोग्य व्यापार		The Parket	(३) अन्य वित्तीय देशनाएं		
(3) 深町	44.00		(निर्दिष्ट किए जाने के लिए		
(आई) डेफरेड कर संपत्तियां (शुद्ध)	11.69	15.14	मद (बी) में उन निर्दिष्टों के अलावा		
(जे) अन्य गैर-चालू संपत्तियां			(बी) प्रावधान	SP NEW A	
कुल गैर-चालू संपत्तियाः	11.70		(सी) डेफरड कर देयताएं (शुद्ध)	Mark Control	
चालू संपत्तियोः	11.70	15.15	(डी) अन्य गैर—चालू देयताएं		
(ए) इनवेंटरीज	0.00	0.00	कुल गैर-चालू देयताएं	0.00	
(बीं) वित्तीय संपत्तियां:	0.00	0.02	चालू देयताएं:	0.00	0.00
(1) निवेश			(ए) वित्तीय देयताएं		
(२) प्राप्तयोग्य व्यापार	118.29	34.34	(1) लघु अवधि ऋण	27.32	
(3) नकद व नकद समतुल्य	0.17	0.34	(2)भुगतानयोग्य व्यापार	86.23	0.00
	O.I.	0.34	(3) अन्य वित्तीय देयताएं	00.23	29.43
(4) उक्त (3) के अतिरिक्त बैंक बकाया			(मद (सी) में जन निर्दिष्टों के अलावा	TOWN THE REAL PROPERTY.	
(5) लघु अवधि ऋण व अग्रिम	3.60	0.00	(बी) अन्य चालू देयताएं	THE	
(६) अन्य चाल संप्रतिनगां	25.07	24.18	(सी) लघु अवधि देयताएं	2.00	
(सी) चाल कर संपत्तियां (श्रद्ध)		24.10	(डी) चालू कर देयताएं (शुद्ध)	2.86	2.96
(डा)अन्य चाल संपत्तियां	1 1000	1014 20	(2,134012(00))	0.57	0.91
कुल चालू संपत्तियाः	147.13	58.89	कुल चालू देयताएं	440.00	
कुल संपत्तियाः	158.83		कुल इक्विटी व देयताएं	116.98	33.30
नोट्स:			241401444016	158.83	74.04

ार्त. 29 अगस्त, 2017 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में कंपनी ने कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए भारतीय लेखा मानकों (इंड

. 23 जनरर, 2017 का आयोजित ।नदशक मंडल की बठक में कंपनी ने कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए भारतीय लेखा मानकों (इंर एस) की अपनाया है। 2. उक्त संपत्ति व देयताओं के विवरण की समीक्षा लेखा समिति द्वारा की गई है और 22 मई, 2018 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल

ड़ोरा अनुमादित किए गए ह।

3. सेबी (एलओडीआर) के विनियम 33 के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के 04 तिमाही के वित्तीय के लिए लेखा रिपोर्ट कंपनी के मैसर्स वीबीआर एंड एसोसिएट्स, वैद्यानिक लेखा परीक्षक द्वारा तैयार किए गए हैं।

4. उक्त संपत्ति व देयताओं का विवरण कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित कंपनीज (सारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और सेबी (सृत्रीबद्ध देयताओं व प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत अधिसूचित अनुसार मारतीय लेखा मानकों के मान्यता व मापक सिद्धांतों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं।

5. अतिरिक्त प्रकटीकरण भारतीय प्रतिभृति बोर्ड (सूवीबद्ध देयताएं व प्रकटीकरण आवश्यकताएं विनियम, 2015) के विनियम 52(4) के अनु 2017-18

वेनियम 52(4) के अनुसार

	2017-18	4947(115 1417147, 2015) of 10
ऋण इक्विटी अनुपात	0.65	2016-17
ऋण सेवा कवरेजें अनुपात	NA	0
शुद्ध लागत (लाख में)	41.86	NA
कर के बाद शुद्ध लाभ (लाख में)	1.12	40.74
मूल आय प्रति शेयर	0.07	2.02

त्रुप्रणान जात संबंध क्योंकि कंपनी ने पूर्व वर्ष (2017–18) में किसी ऋण के साथ-साथ ब्याज का मुगतान नहीं किया है।

यूरो एशिया एक्सपोट्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से व उन्हीं के लिए

हस्ता./-गगन गोयल निदेशक DIN: 07166489

हस्ता. / राम कुमार सिंगल निदेशक DIN: 06595136

दिनांक : 22.05.2018 स्थानः नई दिल्ली

NEW DELHI | WEDNESDAY, 23 MAY 2018 Business Standard

MULTIVISION LIMITED

CIN: L32300MH2004PLC145995

12, Ground Floor, Sangam Arcade, Vallabhbhai Road, ile Parle (West), Mumbai - 400 056, India

t Tel.: 022-40364036 Fax: 022-40364037

fo@euromultivision.com, www.euromultivision.com ncial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2018

	(1	(Rs. in Lakhs except EPS)			
	Quarter	Year			
lars	31-Mar-18	31-Mar-17	Ended		
T9	Audited	Audited	31-Mar-18 Audited		
_et)	468.78	1115.23	1244.18		
(before tax, exceptional			1211.10		
	(391.21)	3940.81	(1718.89)		
(before tax, (after)			(17 (0.00)		
y items)	(391.21)	3940,81	(1718.89)		
after tax, exceptional			(17 10.03)		
	(391.21)	3940.81	(1718.89)		
the period			(17 10.03)		
ne period					
ensive Income (after tax)]	(391.21)	3940.81	(1718.89)		
	2380.00	2380.00	2380.00		
1 Reserve)					
Sheet of previous year					
ach)					
opeartions)					
	(1.64)	16.56	(7.22)		
	(1.64)	16.56	(7.22)		

e detailed format of audited Financial Results for the quarter and year with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and ing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The is extracts is available on website of the Stock Exchanges websites i.e. , and National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com) and www.euromultivision.com.

and this Extract were reviewed by the Audit Committee and approved neir meeting held on Tuesday, 22nd May, 2018.

> For Euro Multivision Limited Sd/-Hitesh Shah Chairman and Whole Time Director DIN: 00043059

BRAWN BIOTECH LIMITED

Regd. Off: 4B, Asaf Ali Road, II Floor, Delhi Stock Exchange Building, New Delhi- 110002 (CIN: L74899DL1985PLC022468)

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29(1)(a) read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015 that 1/18-19 Meeting of the Board of Directors of the company will be held on Tuesday, the 29" May, 2018 at 03.30 P.M. at its registered office situated at 4B, Asaf Ali Road, II Floor, Delhi Stock Exchange Building, New Delhi-110002, inter-alia to consider, approve and take on record the Audited Financial Results for the quarter and year ended on 31" March, 2018.

Further, as per the Company's Code of Conduct fo Prohibition of Insider Trading, the trading window for dealing in the securities of the Company will be closed for the purpose of declaration of Audited Financial Results for the quarter and year ended on 31st March, 2018 for all directors/ officers/ designated employees of the Company from May 23, 2018 till 48 hours after the announcement of the financial results of the Company to the Stock Exchange (both days inclusive).

This information is also available on the website of the Company at www.brawnbiotech.com and on the website of the Stock Exchange at

www.bseindia.com.

For and on behalf of the Board
Sd/-

Place: New Delhi Date: 22.05.2018

Mamta Surkali (Company Secretary)

Grandeur Products Limited

CIN: L15500TG1983PLC110115 CIN: L15500TG1983PLC110115
Registered Office: H. No. 1-62-192,
3rd Floor, Dwaraka Avenue, Kavuri Hills,
Madhapur, Hyderabad, Telangana-500033
Tel: 040-4826655
E-mail: info@grandeurproducts.com
Website: www.grandeurproducts.com
NOTICE
Pursuant to Regulation 47 read with
Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Regulierments)

Disclosure Requirements Regulations, 2015, Notice is hereby given that meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 30* day of May, 2018, inter-alia to consider and take on record the Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the fourth quarter and year ended 31st March, 2018. And the trading window for dealing i securities of the Company will be closed for all Directors, Designated Employees and Auditors (including their dependents) of the Company from 23rd May, 2018 to 1st June, 2018 (both days inclusive).

scheduled to be held on Tuesday the 29th May, 2018 inter-alia to consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the Quarter ended on 31st March, 2018

Sd/ Place : New Delhi (Mandeep Singh Wadhwa) Date : 22.05.2018 Managing Director



W.S. INDUSTRIES (INDIA) LIMITED

CIN: L29142TN1961PLC004568 Regd. Office: 108, Mount Poonamallee Rd. Porur, Chennai - 600 116

NOTICE

Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company has been scheduled to be held on Wednesday, the 30th May 2018, to consider and take on record, inter-alia, Audited Financial Statements of the Company for the quarter and year ended 31st March 2018.

for W.S. Industries (India) Chennai 21.05.2018 Chief Financial Officer

Regd. Office: SF 16-17, 1st Floor. Madame Bhikaji Cama Bhawan, E Cama Place, New Delhi-66, van, Bhikaji Email: investorservices@chddevelopers.com Website: www.chddevelopers.com, CIN- L74899DL1990PLC041188 Ph: +9-11-40100100, Fax: +91-11-40100190

Notice

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 30th May, 2018 at 2:00 p.m. at its Registered Office inter alia to consider and approve Audited standalone and consolidated Financial Results of the Company for the year ended March 31, 2018.

The said notice is also available on the Company's website at www.chddevelopers.com and on the website of BSE Limited (www.bseindia.com).

By the order of the Board For CHD Developers Limited

Date: 22nd May, 2018 Place: New Delhi

Sd/-Rajinder Kumar Mitta (Chairman